

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19]	नई दिल्ली, शनिवार, मई 12—मई 18, 2018 (वैशाख 22, 1940)
No. 19]	NEW DELHI, SATURDAY, MAY 12—MAY 18, 2018 (VAISAKHA 22, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की
नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the
Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 2018

सं. 13017/16/2018-अ.भा.से.-I.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्द्वारा, सुश्री श्वेता तेवतिया, आईएएस (एपी.:2011) को श्री उदित अग्रवाल, आईएएस (जीजे:2008) के साथ विवाह करने के आधार पर आंध्र प्रदेश संवर्ग से गुजरात संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

उदय भान सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सं. 13017/17/2018-अ.भा.से.-I.—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा असम, मेघालय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र सरकार एतद्द्वारा, श्री विपिन कुमार जैन, आईएएस (एएम.:2016) को सुश्री अन्नपूर्णा गर्ग, आईएएस (यूपी:2016) के साथ विवाह करने के आधार पर असम-मेघालय संवर्ग से उत्तर प्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

उदय भान सिंह

अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2018

सं. 02/पीए.-III/2018.—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत राष्ट्रपति, श्री एस. संधील कुमार को दिनांक 03.08.2017 से विधि अधिकारी (ग्रेड-I) के रूप में विधि एवं संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

मनुस्मृति

अवर सचिव (संवर्ग)

सं. 04/पीए.-III/2018.—संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत राष्ट्रपति, सुश्री के. सी. सौमेया को दिनांक 03.08.2017 से विधि अधिकारी (ग्रेड-I) के रूप में विधि एवं संधि प्रभाग, विदेश मंत्रालय में नियुक्त करते हैं।

2. इसे पूर्व की अधिसूचना संख्या 11पी-ए. III/2017 दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को अधिक्रमित करके जारी किया जाता है।

मनुस्मृति

अवर सचिव (संवर्ग)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

फा. सं. ए-35011/6/2018-एडीईडी.—भारत के राष्ट्रपति, श्री सिमांचल, भारतीय राजस्व सेवा (आईटी: 1988) को प्रधान विशेष प्रवर्तन निदेशक दिल्ली के पद पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन मैट्रिक्स के लेवल 15 में, दिनांक 22.03.2018 (पूर्वाहन) से 21.03.2020 (अपराहन) तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, इस शर्त सहित दो वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनिधित्वित आधार पर नियुक्त करते हैं कि उनकी शेष मौजूदा उपशमन अवधि (जो 02.05.2020 तक है) को नियमित उपशमन अवधि में जोड़ दिया जाएगा जो इस पद पर उनकी सेवावधि के पूरा होने पर शुरू होगी।

संतोष कुमार

अवर सचिव

[निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम)]

नई दिल्ली, 18 अप्रैल, 2018

फा. सं. 9/5/2016-प्रशासन.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.02.2018 के आदेश सं. 3/1/2017-सीएस-I(डी) के अनुसरण में भारत के राष्ट्रपति, उप सचिव श्री जी.पार्थासारथी (सीएसएल सं. 4670-ए) को इस विभाग में 01.03.2018 (पूर्वाह्न) से निदेशक के पद पर नियुक्त करते हैं।

एल. आर. प्रधान

अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2018

फा. सं. ए-32013/02/2017-एन.टी.एच.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में श्री एस.एम. परनेरिया, वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक सिविल) को, 15600-39100 रु. के वेतन बैंड 3 + 5400 रु. के ग्रेड वेतन (पूर्व संशोधित) में दिनांक 31.01.2018 (पूर्वाह्न) से राष्ट्रीय परीक्षण शाला में नियमित आधार पर वैज्ञानिक बी (भौतिक सिविल) के पद पर पदोन्नत करते हैं।

डी. के. सोनकर

उप निदेशक (एन.टी.एच.)

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(जैव-प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2018

सं. ए-12011/01/2018-स्था.—राष्ट्रपति, डॉ. रेणु स्वरूप को 10 अप्रैल, 2018 पूर्वाह्न से आगामी 2 वर्ष की अवधि के लिए या 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, या आगामी आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, सचिव, जैव-प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पद पर नियुक्त करते हैं।

जे. पी. मीणा

अवर सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीएचएस-1 अनुभाग)

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

सं. ए.-12025/208/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ हेमा गोगिया को दिनांक 25 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी॰बी॰ -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ हेमा गोगिया को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एवं श्रीमति सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, नई दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ॰ हेमा गोगिया दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय

अवर सचिव

सं. ए.-12025/249/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० बी संध्या को दिनांक 11 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी. -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० बी संध्या को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, हैदराबाद के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। बी. संध्या दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं. ए.-12025/462/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० अनामिका को दिनांक 09 जनवरी, 2015 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० अनामिका को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ० अनामिका दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं. ए.- 12025/500/2014-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० अनीता मीना को दिनांक 12 अगस्त, 2014 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पी.बी -3 के वेतनमान (15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० अनीता मीना को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ० अनीता मीना दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

नई दिल्ली, 4 मई, 2018

सं. ए.-12025/77/2016-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० अभिनव सेनगुप्ता को 15.07.2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए-15600-39100 + रुपए-5400 ग्रेड वेतन)(पूर्व संशोधित) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० अभिनव सेनगुप्ता को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कोलकता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ० अभिनव सेनगुप्ता अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

सं. ए.-12025/88/2013-सीएचएस 1.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ० निखिल उमाकांत रामटेके को 12.08.2013 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड के (पीबी-3) (रुपए-15600-39100 + रुपए-5400 ग्रेड वेतन) के वेतनमान में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ० निखिल उमाकांत रामटेके को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, नागपुर के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ० निखिल उमाकांत रामटेके अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए परीवीक्षा पर रहेंगे।

शीतांशु मोहन राउतराय
अवर सचिव

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2018

फा. सं. एन-01/07/2018-प्रशासन.III.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर डॉ. अलोक कुमार यादव को 16 अप्रैल, 2018 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश होने तक पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग के अंतर्गत अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म में सीधे भर्ती के आधार पर पशुचिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतन सांचा की स्तर-10 (रु. 56100-177500) में नियुक्त करते हैं।

हरबंस लाल

अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2018

फा. सं. 15-2530/10-स्थापना-I.—श्री वीरेन्द्र सिंह, आईईएस (2001), उप सचिव को 21.09.2014 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में उनकी केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी होने के फलस्वरूप, दिनांक 18.09.2014 से 01.10.2014 तक पैतृत्व अवकाश लेने के बाद दिनांक 02.10.2014 से 06.12.2014 तक राजपत्रित अवकाश को बाद में शामिल करते हुए उन्हें उनके मूल काडर में रिपोर्ट करने की सलाह के साथ 07.10.2014 (पूर्वाह्न) से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2015

सं. ए.-32011/9/2013-स्थापना-।—राष्ट्रपति, इस मंत्रालय के दिनांक 09.01.2015 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, श्री सुशांत कुमार साहा (सीएसएस सं. 8635) को ग्रेड वेतन 6600 रु. के साथ पीबी. 3 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 01.01.2015 (पूर्वाह्न) [26/12/14 (पूर्वाह्न के स्थान पर)] से 31.05.2015 अथवा जब तक पदों को नियमित आधार पर भरा नहीं जाता अथवा अगले आदेशों, इनमें जो पहले हो, तक पूर्णतया तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) पद पर नियुक्त करते हैं।

2. पूर्वोक्त अधिसूचना में उल्लिखित अन्य सभी विषय-वस्तु वहीं रहेगी।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 2015

सं. ए.-32011/09/2013-स्थापना-I.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी श्री दीपचंद लाकड़ा को 26.03.2015 को (अपराह्न) से 31.05.2015 तक की अवधि के लिए अथवा इस पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर सीएसएस के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 7 मई, 2015

सं. ए.-32011/5/2015-ई.आई.—सांख्यिकीय और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के दिनांक 17/04/2015 के कार्यालय आदेश संख्या 12015/03/2014-आईएसएस के अनुसरण को डॉ. अर्चना शुक्ला, सहायक निदेशक (प्रशिक्षु) को वेतन बैंड-3(15600-39100) + ग्रेड वेतन 5400 में 27.04.2015 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उच्चतर शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक प्रशिक्षु के पद पर नियुक्त किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 8 मई, 2015

सं. ए.-32011/5/2014-ई.आई.—राष्ट्रपति महोदय, उच्चतर शिक्षा विभाग के डॉ. नसीम अहमद सहायक शिक्षा सलाहकार (जी), 7600/-रु. के वेतन ग्रेड सहित पेय बैंड -3 (15600-39100) में 06.05.2015 पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेशों जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति डॉ.नसीम अहमद के अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी और तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

फा. सं. ए.-12011/3/2014-ई.आई.—राष्ट्रपति महोदय, अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ)(राजपत्रित) के रूप में श्री दलीप सिंह की नियमित पदोन्नति के परिणामस्वरूप 4600/- रु., के वेतन ग्रेड के साथ श्री दलीप सिंह कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी को 01.05.2015 के पूर्वाह्न से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ)(राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 15 मई, 2017

सं.एफ. 15-2832/2014-स्था.आई.—श्री शशि प्रकाश गोयल, आईएस (यूपी: 1989), संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के उनके मूल कैडर अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार में प्रत्यावर्तन के परिणामस्वरूप उन्हें 15.05.2017 (अपराह्न) से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 16 जून, 2015

सं. ए. 32011/09/2013-स्था. I.—वर्ष 2013 की चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सीएसएस के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को दिनांक 23.01.2015 से अथवा अगले आदेशों तक, वेतन बैंड-3 + 6600 रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	सीएसएस सं.
1.	ए.के.सिंह	7842
2.	वर्गीज योहानन	7869
3.	राजीव कुमार	7914

संजीव श्रीवास्तव

अवर सचिव

नई दिल्ली, 29 जून, 2015

सं. ए. 32011/09/2013-स्था. I.—वर्ष 2012 की चयन सूची में उनके नाम शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति सीएसएस के निम्नलिखित तदर्थ अवर सचिवों को दिनांक 04.02.2015 से अथवा अगले आदेशों तक, वेतन बैंड-3 + 6600 रुपए के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्व/श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.)	सीएसएस सं.
1.	विजय कुमार	8436
2.	देवेन्द्र कुमार	8440

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2015

सं. एफ.-15-2601/2011-स्थापना-I.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री कुंदन नाथ, अनुभाग अधिकारी को 31.12.2015 तक की अवधि के लिए अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, 24.07.2015 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-1 में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

सं. एफ.-15-2601/2011-स्थापना-I.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री विकास त्रिपाठी, अनुभाग अधिकारी को 31.12.2015 तक की अवधि के लिए अथवा इन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो,

24.07.2015 (पूर्वाह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति से अनिश्चितकाल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सीएसएस के ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को उन्हें बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

सं. एफ-15-2583/2011-ई.1.—रोहतास भांकर और अन्य बनाम भारत संघ नाम से 2004 के सी.ए. संख्या 6046-47 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कार्यान्वयन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड बी/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई), 1996 के परिणामों में संशोधन के परिणामस्वरूप श्री रोहतास भांकर (रोल नं. 000290), जो इस समय मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में अवर सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड की वर्ष 1996 की चयन सूची में डीई कोटे में शामिल किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

सं. एफ. 15-2472/2010-ई.1.—श्री राजेन्द्र कुमार महेश्वरी, अवर सचिव (सीएसएल सं. 6440), का 13/07/2015 को दुखद देहान्त हो जाने पर उनका नाम 13/07/2015 (अपराह्न) से मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संवर्ग और वेतन-सूची से काटा जाता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2015

सं. एफ. 15-2882/2015-ई.1.—राष्ट्रपति सुश्री गुरप्रीत कौर, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी को कैलेंडर वर्ष 2015 की रिक्ति के स्थान पर उनकी पीवी-2 [9300-34800 रुपए] में ग्रेड वेतन 4600/- रुपए के साथ अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) (राजपत्रित) के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 11.08.2015 से तथा अगले आदेश तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

सं. एफ. 15-2884/2015-स्था.-1.—राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफएस (जेके:1993) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में दिनांक 24.08.2015 (पूर्वाह्न) से, पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2015

सं. ए-32011/09/2013-ई.1.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा(अवर सचिव) के ग्रेड-1 में नियुक्ति के लिए उनके नामों को वर्ष 2014 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, सीएसएस के निम्नलिखित अवर सचिवों को 14.09.2015 से अथवा अगले आदेशों तक 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन के साथ-वेतन बैंड-3 में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	अधिकारी का नाम सर्व/श्री/श्रीमती/सुश्री/डा.	सीएसएल सं.
1.	राजेश कुमार मौर्य	8204
2.	किरण कुमार अरोड़ा	8224
3.	सी.पी.रत्ताकरम	8264
4.	दौलत राम	8300
5.	आलोक जवाहर	8318
6.	पी भक्तवत्सलम	8322
7.	बी.के.शर्मा	8406
8.	ए.के.गोपाल	8474
9.	के.डी.वर्मा	8510
10.	अचित कुमार	8550
11.	पुष्कर कुमार सिंह	8554
12.	दीपचंद लाकड़ा	8759

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2015

सं. एफ.-15-2530/10-ई.1.—मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में 21.09.2015 को केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की उनकी बढ़ाई गई अवधि के पूर्ण होने के परिणामस्वरूप श्री विरेन्द्र सिंह, आईईएस (2001), उप सचिव 22.09.2015 पूर्वाह्न में अपने कार्य-भार से मुक्त हो गए हैं।

2. केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूर्ण होने पर, श्री विरेन्द्र सिंह, उप सचिव को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20.05.87 के कार्यालय ज्ञापन सं. 27(38)-ईओ/87 (एसएम) के अनुसरण में 22.09.2015 से 20.11.2015 तक (21.11.2015 और 22.11.2015 के अवकाश के दिनों को जोड़कर) 60 दिनों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उपर्युक्त अवकाश समाप्त होने पर, श्री विरेन्द्र सिंह को अपने मूल कैडर में रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सं. एफ.15-2896/2015-ई.1.—राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के लिए नियुक्ति हेतु श्री घनश्याम (सीएसएल नं. 8952) का नाम वर्ष 2014 की चयन सूची में आने के परिणामस्वरूप दिनांक 27.10.2015 (पूर्वाह्न) से अथवा अगले आदेशों तक उन्हें 6600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ पीवी-3 में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

सं. एफ-2897/2015-ई.1.—राष्ट्रपति सीएसएस सेवा के ग्रेड-1 (अवर सचिव) के लिए नियुक्ति हेतु श्री राजेन्द्र प्रसाद (सीएसएल नं. 8956) का नाम वर्ष 2014 की चयन सूची में आने के परिणामस्वरूप, 20.10.2015 के पूर्वाह्न से अथवा अगले आदेशों तक उन्हें 6600/- रु. के ग्रेड वेतन के साथ पीबी-3 में नियमित आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. ए-32011/3/2016-स्था-1.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/1/2014-ईओ (एमएम-1) दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के अनुसरण में स्तरोन्नयन का लाभ प्राप्त करने के लिए मूल कैडर में समय-पूर्व प्रत्यावर्तन के अनुरोध को स्वीकार करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावडेकर) के निजी सचिव, श्री विनय श्रीवास्तव, आईआरएसएमई (1992) को 24 नवम्बर, 2017 अपराह्न से उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2015

सं. ए-32011/09/2013-ई.1.—इस मंत्रालय की दिनांक 19.10.2015 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए और केंद्रीय सचिवालय सेवा (अवर सचिव) के ग्रेड-1 पद में नियुक्ति के लिए वर्ष 2014 की चयन सूची में उनके नाम को शामिल करने के परिणामस्वरूप राष्ट्रपति श्री पुष्कर कुमार सिंह (सीएसएल सं. 8554) को दिनांक 01/12/2015 से अथवा अगले आदेश होने तक 6600 रु. के ग्रेड वेतन सहित पीबी-3 में नियमित आधार पर सीएसएस के अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2016

सं. एफ. 15-2910/2015-ई.1.—राष्ट्रपति, श्री सिलजो वी.के., आईएसएस (2004), उप सचिव को दिनांक 22.01.2016 (अपराह्न) से, चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में सेनट्रल स्टाफिंग स्कीम के अन्तर्गत 7,600/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2016

सं. फा. 15-2916/2016 -ई.1.—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री प्रेमप्रकाश गुप्ता, अवर सचिव (सीएसएल सं. 5694) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में 03.02.2016 (पूर्वाह्न) से पूर्णतया तदर्थ आधार पर प्रारंभ में 30.06.2016 तक की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सीएसएस के उप सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति, पदधारी को अनिश्चितकाल तक उस ग्रेड में बने रहने का अधिकार नहीं प्रदान करेगी और उन्हें किसी भी समय बिना कोई कारण स्पष्ट किए ग्रेड से हटाया जा सकता है।

3. उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.02.2016 के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-1(डी) के नियमों और शर्तों के अधीन होगी।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2016

सं. एफ.15-2921/2016-ई.1.—राष्ट्रपति श्रीमती मालती नारायण, केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अवर सचिव (सीएसएल सं. 5756) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 10.03.2016 (पूर्वाह्न) से प्रारंभिक रूप से 30.06.2016 तक की अवधि के लिए, या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पूर्णतः तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के उप सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उपरोक्त नियुक्ति से पदधारी को ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा तथा इस नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

3. उपरोक्त तदर्थ नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के आदेश सं. 4/11/2015-सीएस-I(घ) दिनांक 08.03.2016 के पैरा-3 में उल्लिखित नियमों बशर्तों के अधीन होगी।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2016

सं. एफ. 15-2922/2016-स्था.-I.—राष्ट्रपति, श्री गिरीश चंद्रशेखर होसूर, आईएफएस (एचपी:1996) को 21.03.2016 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 मई, 2016

सं. ए. 32011/5/2014-ई.1.—इस मंत्रालय की दिनांक 8 मई, 2015 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में राष्ट्रपति महोदय, डॉ. नसीम अहमद सहायक शैक्षिक सलाहकार की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 7600/- रु. के ग्रेड पे सहित (15600-39100) के पे बैंड-3 में उप शैक्षिक सलाहकार के रूप में 06.05.2016 से अगले छः माह की अवधि या जब तक नियमित व्यवस्था की जाती है, जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ाते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 28 जून, 2016

सं. ए.-22011/06/2013-ई.1.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2016- सीएस.1 (डी) दिनांक 06.06.2016 के अनुसरण में राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को, जो तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में कार्यरत हैं, वर्ष 2012 की चयन सूची के आधार पर दिनांक 6 जून, 2016 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नियमित रूप से केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप-सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं:

क्र. सं.	सीएसएल सं.	अधिकारी का नाम
1.	4917	श्री अनिल ककड़िया
2.	4937	श्री दलीप कपूर
3.	4970	श्री नवीन चन्द्र रगताह
4.	4982	सुश्री नीता गुप्ता
5.	4984	श्री सुबोध कुमार धिल्लियाल
6.	5000	श्री बी.डी. शिवानी
7.	5438	श्री माणिक मंडल

2. उपर्युक्त नियमित नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/4/2016-सीएस.। (डी) दिनांक 06.06.2016 में यथा निर्धारित निबंधन और शर्तों के अधीन होगी।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2016

सं. ए-12011/3/2015-ई.।.—भारतीय सांख्यिकी सेवा के कनिष्ठ टाइम स्केल से वरिष्ठ टाइम स्केल में उनकी नियमित प्रोन्नति के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, श्री कृष्ण कुमार तिवारी को 10 दिसम्बर, 2015 (पूर्वाह्न) या अगले आदेशों तक पे-बैंड-3 [15600-39100 रुपए] + 6600 रुपए के ग्रेड पे में नियमित क्षमता में उप निदेशक (एसटीएस स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 2 सितम्बर, 2016

सं. ए. 32011/5/2015.—राष्ट्रपति श्रीमती स्वप्ना भट्टाचार्य आईएसएस को 19 अगस्त, 2016 की अपराह्न से अथवा अगले आदेशों तक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

सुजीत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2016

सं. ए.-32011/5/2014-ई.।.—इस मंत्रालय की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मई, 2016 के क्रम में राष्ट्रपति, डॉ. नसीम अहमद सहायक शिक्षा सलाहकार की उप शिक्षा सलाहकार के रूप में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को पे बैंड-3 (रु.15600- 39100) + 7600 ग्रेड पे सहित 05.11.2016 से तीन माह की अवधि या जब तक नियमित व्यवस्था की जाती है, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2016

सं. ए.-2715/2013-स्था.।.—श्री वाई. ए. के. शेषु कुमार, आईएफओएस (उत्तर प्रदेश: 87), संयुक्त सचिव को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 04.11.2016 (अपराह्न) से केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरे हो जाने के परिणामस्वरूप 4 नवम्बर, 2016 अपराह्न से उनके कार्य से मुक्त माना जाता है।

2. कार्यमुक्त होने पर, दिनांक 20.05.87 के डीओपीएंडटी कार्यालय ज्ञापन संख्या 27 (38)-ईओ/87 (एसएम) के अनुसरण में श्री वाई.एस.के. शेषु कुमार, संयुक्त सचिव को दिनांक 05.11.2016 से 03.01.2017 तक 60 दिन के लिए अर्जित अवकाश प्रदान किया जाता है। श्री वाई.एस.के. शेषु कुमार से अनुरोध है कि वे पूर्वोक्त अवकाश की समाप्ति पर अपने मूल संवर्ग अर्थात् उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2016

सं. ए. 15-2956/16-ई.1.—राष्ट्रपति, श्री केवल कुमार शर्मा, आईएएस (एजीएमयूटी : 83) को दिनांक 02.12.2016 पूर्वाह्न से उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2017

सं. ए. 11011/1/2016-ई.1 (भाग).—राष्ट्रपति, श्री अश्विनी कुमार, आईएएस (एएम: 2010), को 6600 रु. के (संशोधित पे मैट्रिक्स में लेवल-11) के ग्रेड वेतन के साथ पीवी- 3 [15600-39100/- रु.] में दिनांक 30.12.2016 (पूर्वाह्न) से मंत्री के कार्यकाल के साथ को-टर्मिनस आधार पर अथवा तब तक वह मंत्री के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं कर देते हैं, तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 20 जनवरी, 2017

सं. एफ. 15-2829/2014-स्था.1.—राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सदस्य सचिव के रूप में डॉ. सतबीर बेदी, आईएएस (एजीएमयूटी : 86), संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की नियुक्ति के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 23.01.2017 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में उनके कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2017

सं. एफ. 15-2963/2017-ई.1.—राष्ट्रपति, श्री किर्ती शंकर अवस्थी (यूपीपीसीएस), उप निदेशक (पंचायत), आगरा प्रभाग, उत्तर प्रदेश सरकार को 7600 रु. के ग्रेड पे (संशोधित पे मैट्रिक्स में स्तर-12) सहित पे बैंड- 3 [15600-39100/-रु.] में चार वर्ष की अवधि या मंत्री के कार्यकाल में को-टर्मिनस आधार पर या जब तक वह मंत्री के ओएसडी के रूप में कार्य करना बन्द नहीं कर देते या अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, 03.04.2017 (पूर्वाह्न) से माननीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री (डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय) के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

सं. एफ. 15-2964/2017-ई.1.—राष्ट्रपति, सुश्री अनिता करवाल, आईएएस (जीजे:1998) को पांच वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सुश्री सतबीर बेदी, आईएएस (एजीएमयूटी:1986) के स्थान पर 10.04.2017 को पूर्वाह्न से संयुक्त सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2017

सं. ए.-12011/4/2015.—राष्ट्रपति महोदय, राजभाषा विभाग के दिनांक 29.03.2017 के कार्यालय आदेश सं. 5/13/2013-रा.भा. (सेवा) के द्वारा उनकी पदोन्नति और 21.04.2017 (अपराह्न) को पद पर कार्यभार ग्रहण करने के परिणामस्वरूप श्रीमती सुनीति शर्मा को 21 अप्रैल, 2017 (अपराह्न) अथवा अगले आदेश तक, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्त करते हैं।

राजेश कुमार सिंह

अवर सचिव

नई दिल्ली, 8 जून, 2017

सं. एफ. 15-2970/2017-ई.1.—माननीय राष्ट्रपति महोदय, श्री अनिल कुमार, आईटीएस (2000) की मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में दिनांक 07.06.2017 (अपराह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत निदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

पी. शशि कुमार

उपसचिव

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2017

सं. ए. 32011/8/2014-स्था-I.—राष्ट्रपति, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव, सुश्री अनीता करवाल, आईएएस (जीजे : 88) को उनके द्वारा धारित वर्तमान पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करते हुए 22.07.2017 (पूर्वाह्न) से अपर सचिव [स्वस्थाने], स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

सं. ए.-32011/8/2014-स्था-I.—राष्ट्रपति, उच्चतर शिक्षा विभाग में संयुक्त सचिव, श्री सुखबीर सिंह संधु, आईएएस (यूके : 88) को उनके द्वारा धारित वर्तमान पद को अस्थायी रूप से अपग्रेड करते हुए 22.07.2017 (पूर्वाह्न) से अपर सचिव [स्वस्थाने], उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, के पद पर नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2017

सं. ए. 32011/08/2014-स्था-I.—औषध निर्माण विभाग के अधीन राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) में लैटरल शिफ्ट आधार पर सदस्य सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) के रूप में उनकी नियुक्ति होने के परिणामस्वरूप, श्री राकेश रंजन, भा.प्रशा.सेवा (एमएन:1992), संयुक्त सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग दिनांक 14.08.2017 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में अपने कार्यों से मुक्त हो जाएंगे।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2017

फा. सं. 15-2756/2013-स्था. I.—राष्ट्रपति, डीओपीटी के दिनांक 10 अगस्त, 2017 के आदेश सं. 21/2/2015-सीएस.1 (डी) के जरिए केंद्र में संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष पद को संभालने के लिए पैनल में उनके नाम को शामिल किए जाने और नियुक्ति के परिणामस्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के श्री मनोज कुमार केजरीवाल, निदेशक (सीएसएल सं. 3575-ए) को 11.08.2017 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) में एसएजी ग्रेड में संयुक्त सचिव (स्वस्थाने) नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2017

सं. ए. 32011/8/2014-स्था. I.—राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार सिन्हा, आईएफओएस (जेके: 1993) को कुल पांच वर्ष की अवधि अर्थात् 23.08.2020 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, दिनांक 21.11.2017 अपराह्न से श्री राकेश रंजन, आईएएस (एमएन: 1992) के स्थान पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 [1,44,200-2,18,200 रुपए] में उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2017

सं. ए. 32011/8/2014-स्था. I.—राष्ट्रपति, श्री आर.सुब्रह्मण्यम, आईएएस [एपी:85], अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग को व्यक्तिगत कारणों से दिनांक 01.12.2017 (पूर्वाह्न) से उनके द्वारा धारित पद के अस्थायी स्तरोन्नयन के जरिए स्व-स्थाने उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में विशेष सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी.शशिकुमार

उप सचिव

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2017

सं. ए. 32011/9/2014-ई. I.—राष्ट्रपति श्री सचिन सिन्हा, आईएएस (म.प्र.: 1995) को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-14 [1,44,200-2,18,200 #पए] में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में दिनांक 18.12.2017 के पूर्वाह्न से पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, इनमें जो भी पहले हो, के लिए श्री अजय तिकी, आईएएस (म.प्र.: 1987) के स्थान पर संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. शशिकुमार

उप सचिव

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

सं. ए. 32011/3/2016-स्था. I.—राष्ट्रपति, डॉ.मनदीप कुमार भंडारी, आईएएस(जेके:2001) को दिनांक 18.01.2018 (पूर्वाह्न) से पांच वर्ष की अवधि के लिए या मंत्री के साथ को-टर्मिनस आधार पर या जब तक वे मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त नहीं कर देते हैं या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए निदेशक स्तर [पीबी-4+जीपी-8700/-] (पूर्व संशोधित)[पे मैट्रिक्स के स्तर-13] में उच्चतर शिक्षा विभाग में माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

अचिंत कुमार

अवर सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2018

सं. ए-19011/2/2018-स्थापना.—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति का सचिवालय) के दिनांक 28.02.2018 के आदेश संख्या 36/01/2018-ईओ (एसएम-1) (1) के माध्यम से संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रिक्त पद का अस्थायी रूप से स्तरोन्नयन करके श्री बिपिन बिहारी मल्लिक, आईएएस (एमएच :1986) की अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के रूप में नियुक्ति के परिणामस्वरूप, उन्होंने दिनांक 1 मार्च, 2018 (पूर्वाह्न) से संस्कृति मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

मनीश राजन

अवर सचिव

(भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण)

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2018

सं. 3-2/2015-प्रशा-I.—राष्ट्रपति, वर्ष 2015-16 के लिए सहायक निदेशक (रा.भा.) ग्रेड की नियमित सूची में नाम शामिल किये जाने के परिणामस्वरूप, श्रीमती अनिता अनुराग, सहायक निदेशक (रा.भा.) (तदर्थ) को निम्नलिखित विवरण के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं—

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तारीख	वर्ष
1.	श्रीमती अनिता अनुराग	2. 08.03.2018	3. 2015-16

तारा चंदर

उप निदेशक (प्रशासन)

इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र)

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2018

सं. पीएफ/932/एनआईसी/2017-प्रशा-I.—श्री संजय सिंह गहलोत, वैज्ञानिक-जी (कर्मचारी कोड: 932), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली से 31 मार्च, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल

उप निदेशक

सं. पीएफ/708/एनआईसी/2017-प्रशा-I.—श्री रतन लाल अरोड़ा, उप निदेशक (कर्मचारी कोड: 708), राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, नई दिल्ली से 31 मार्च, 2018 की अपराह्न से सरकारी सेवा से अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं और उन्हें उसी दिन से ड्यूटी से कार्य मुक्त किया जाता है।

पी. आर. डबराल

उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, 13 अप्रैल 2018

सं-ईआरबी .I/2014/2/41.—राष्ट्रपति जी, सुश्री लिली पान्डेया, आईआरपीएस, को 09.04.2018 की अपराह्न से एसए ग्रेड में पदोन्नत कर कार्यपालक निदेशक, ई/स्पेशल प्रोजेक्ट्स (यूनिवर्सिटी) रेलवे बोर्ड के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रंजनेश सहाय

सचिव, रेलवे बोर्ड

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2018

सं. ई (ओ)III-2018/आरएन/16.—श्री सरोज कांत पात्र, भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (जन्म तिथि: 13/12/1966, डीआईटीएस: 30/11/1992; लिएन: दक्षिण पूर्व रेलवे) का रेल विकास निगम लिमिटेड (आर.वी.एन.एल.) में स्थाई समाहन होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 05/04/2018 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

रंजनेश सहाय,

सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 2018

फा. सं. ए-32013/3/2017.—एस एल—राष्ट्रपति, उप-निदेशक के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 (वेतन बैंड-3 रु 15600-39100 ग्रेड वेतन रु. 7600 (पूर्व संशोधित)) के वेतनमान में दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय में निदेशक के पद पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीखों से प्रोन्नत करते हैं:

क्रम संख्या	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	श्री आर के वर्मा	16/03/2018 (अपराह्न)
2	श्री डी. वेंकटरामन	19/03/2018 (अपराह्न)
3	श्री एस. बी. मिश्रा	14/03/2018

जीतेन्द्र कुमार गोस्वामी

सहायक निदेशक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

[स्थापना-I(बी) अनुभाग]

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 2017

सं. ए-38012/2/2017-ई-I(बी).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में प्रमुख निजी सचिव के रूप में कार्यरत केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी श्री ब्रिज भूषण, दिनांक 01.09.2017 (अपराह्न) से अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

राजिन्दर कुमार

अवर सचिव

नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2018

सं. ए-38013/02/2017-ई-1(बी).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अधिकारी श्री बलदेव सिंह अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.01.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजिन्दर कुमार,
अवर सचिव

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सं. ए-38012/01/2017-ई-1(बी).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में प्रधान निजी सचिव के रूप में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा के अधिकारी श्री चंचल घोष अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31.03.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

राजिन्दर कुमार
अवर सचिव

नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 2018

सं. 49/5/2008-प्रशा. I.—मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति के द्वारा भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नति तथा आर्थिक कार्य विभाग के संख्या पी-3/2018 दिनांक 23.03.2018 के आदेश के द्वारा आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रपति, सुश्री योगिता स्वरूप (1992) को दिनांक 02.04.2018 के पूर्वाह्न से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में पे मैट्रिक्स के लेवल-14 में आर्थिक सलाहकार के पद पर अगले आदेश तक के लिए, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अरविंद पोखरियाल
अवर सचिव

नई दिल्ली, 1 मई 2018

सं. 6/186/90-प्रशासन-1.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के डॉ. डी. के. खरे, वैज्ञानिक 'एफ', 30.04.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अरविंद पोखरियाल
अवर सचिव

सं. 6/189/90-प्रशासन-1.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के श्री एस. के. सिंह, वैज्ञानिक 'जी', 30.04.2018 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हुए।

अरविंद पोखरियाल
अवर सचिव

कार्यालय : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिसा, भुवनेश्वर

भुवनेश्वर, 17 अप्रैल, 2018

स्था.आ.सं. 06.—दिनांक 02.04.2018 के का.आ.ग.सं. 05 के तहत पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार करने के फलस्वरूप प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओडिसा ने निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को सीसीएस (संसोधित वेतन) नियमावली 2016 के तहत पे मैट्रिक्स के स्तर-9 (रु. 53,100/- से रु. 1,67,800/-) में उनके वरिष्ठों के पूर्वाग्रह के बिना उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (प्रत्येक के समक्ष दर्शायी गई है) से उन्हें लेखा अधिकारी (ग्रुप 'ख' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नति करने की सहर्ष अनुमति प्रदान की है।

नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
श्री मोहन चरण बेदांत	03.04.2018 (पूर्वाह्न)
श्री पितांबर रथ	02.04.2018 (पूर्वाह्न)
श्री बामदेव पाणी	02.04.2018 (पूर्वाह्न)

पदोन्नति अस्थायी आधार पर उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यदि कोई हो के अंतिम निर्णय के आधार पर की जाती है।

दिनांक 02.04.2018 के का.आ.ग.सं. 05 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

दिनांक: 17.04.2018

ए. के. जोशी, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

भुवनेश्वर, 18 अप्रैल, 2018

स्था.आ.सं.11.—मुख्यालय के परिपत्र सं.17-स्टाफ (नि.1)/2016 के साथ जारी पत्र सं. 889-(नि.1)/18-2010 खण्ड-III दिनांक 18.05.2016 के परिपालन में दिनांक 02.04.2018 के का.आ.ग.सं. 06 के तहत जारी पदोन्नति के प्रस्ताव को स्वीकार करने पर निम्नलिखित एसएस (सिविल लेखा) उत्तीर्ण कर्मचारियों को सीसीएस (संसोधित वेतन) नियमावली 2016 के तहत वेतन मैट्रिक्स के स्तर-8 (रु. 47,600/- से रु.1,51,100/-) में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की अनुमति दी जाती है।

क्र.	नाम (श्री/सुश्री)	वर्तमान पद	वर्ग
1	कैलाश चंद्र बेहेरा	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित
2.	प्रभात कुमार प्रधान	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित
3.	मन्मथ कुमार बेहेरा	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित
4.	बिश्वजीत साहू	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित
5.	शरत चंद्र भारीमल्ल	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित
6.	कुमार भास्कर	स.ले.अ.(तदर्थ)	अनारक्षित

उपर्युक्त अधिकारियों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रमानुसार दर्शाए गए हैं।

दिनांक 02.04.2018 के का.आ.ग.सं.06 में वर्णित अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

ए. के. जोशी, वरिष्ठ उपमहालेखाकार (प्रशासन)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 12th April, 2018

No.13017/16/2018-AIS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Government of Andhra Pradesh and Gujarat, the Central Government hereby transfers Ms. Shweta Teotia, IAS (AP:2011) from Andhra Pradesh cadre to Gujarat cadre on grounds of marriage to Shri Udit Agrawal, IAS (GJ:2008).

UDAI BHAN SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 24th April, 2018

No.13017/17/2018-AIS-I.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the State Governments of Assam, Meghalaya and Uttar Pradesh, the Central Government hereby transfers Shri Vipin Kumar Jain, IAS (AM:2016) from Assam-Meghalaya cadre to Uttar Pradesh cadre on grounds of marriage to Ms. Annapurna Garg, IAS (UP:2016).

UDAI BHAN SINGH

Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 9th February, 2018

No.03/PA. III/2018.—On being selected by the UPSC, the President is pleased to appoint Shri S. Senthil Kumar as Legal Officer (Grade.I) in the Legal & Treaties Division, Ministry of External Affairs with effect from 03.08.2017.

MANUSMRITI

Under Secretary (Cadre)

No.04/PA. III/2018.—On being selected by the UPSC, the President is pleased to appoint Ms. K.C. Sowmya as Legal Officer (Grade.I) in the Legal & Treaties Division, Ministry of External Affairs with effect from 03.08.2017.

2. This issues in supersession of the earlier notification No. 11/PA-III/2017 dated 10th October, 2017.

MANUSMRITI

Under Secretary (Cadre)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 11th April, 2018

F. No. A 35011/6/2018-Ad.ED.—The President of India is pleased to appoint Shri Simanchala Dash, IRS (IT:1988) to the post of Principal Special Director of Enforcement, Delhi in Level 15 of the Pay Matrix as per 7th CPC, on deputation basis for a period of two (02) years w.e.f. 22.3.2018 (FN) to 21.3.2020 (AN) or until further orders, whichever is earlier, with

the condition that the remainder of his current cooling off period (which is upto 02.05.2020) would be added to the regular cooling off period which commences upon the completion of his tenure on this post.

Santosh Kumar

Under Secretary

(Department of Investment and Public Asset Management)

(DIPAM)

New Delhi, the 18th April, 2018

No.9/5/2016-Admn.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No.3/1/2017-CS-I (D) dated 28.2.2018, the President of India is pleased to appoint Shri G Parthasarathi (CSL No.4670-A), Deputy Secretary in this Department as Director with effect from 01.03.2018 (FN).

L R. PRADHAN

Under Secretary

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 9th April, 2018

F. No. A-32013/02/2017-NTH.—On the recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to promote Shri S.M. Parneria, Scientific Officer (Physical Civil) to the post of Scientist B (Physical Civil) in the National Test House in the pay band 3 of Rs. 15600-39100+Grade pay of Rs. 5400/-(pre-revised) on regular basis with effect from 31-01-2018 (FN).

D.K. SONKER

Deputy Director (NTH)

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(Department of Biotechnology)

New Delhi, the 10th April, 2018

No.A-12011/01/2018-Estt.—The President is pleased to appoint Dr. RenuSwarup as Secretary, Department of Biotechnology in the Ministry of Science & Technology with effect from the forenoon of 10th April, 2018 for a period of two years or until attaining the age of 60 years, or until further orders, whichever is the earliest.

J. P. MEENA

Under Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(CHS I SECTION)

New Delhi, the 2nd May, 2018

No.A.-12025/208/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. HemaGogia to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 25th April, 2015 until further orders. Dr. HemaGogia is posted as Medical Officer under Lady Hardinge Medical College & Smt. SuchetaKriplani Hospital, New Delhi. Dr. HemaGogia will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.-12025/249/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. B. Sandhya to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs.15600-39100 + Rs.5400 Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th August, 2014 until further orders. Dr. B. Sandhya is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Hyderabad. Dr. B. Sandhya will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.-12025/462/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anamika to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs.15600-39100 + Rs.5400 Grade Pay) in a temporary capacity with effect from the afternoon of 9th January, 2015 until further orders. Dr. Anamika is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Delhi. Dr. Anamika will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.-12025/500/2014-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anita Meena to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 (Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 12th August, 2014 until further orders. Dr. Anita Meena is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Delhi. Dr. Anita Meena will be on probation for a period of two years.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.-12025/77/2016-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. AbhinavSengupta to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 15.07.2016 until further orders. Dr. AbhinavSengupta is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Kolkata. Dr. AbhinavSengupta shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

No.A.-12025/88/2013-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Nikhil UmakantRamteke to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] in a temporary capacity with effect from the forenoon of the 12.08.2013 until further orders. Dr. Nikhil UmakantRamteke is posted as Medical Officer under Central Govt. Health Scheme, Nagpur. Dr. Nikhil UmakantRamteke shall be on probation for a period of two years from the date of appointment.

SITANSU MOHAN ROUTRAY

Under Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries)

New Delhi, the 23rd April, 2018

No. N-01/7/2018-Admin-3.—On the recommendation of Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Alok Kumar Yadav as Veterinary Officer in Level-10 of pay matrix [Rs. 56100-177500] in Central Cattle Breeding Farms under the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries w.e.f. 16th April, 2018 (Forenoon).

HARBANS LAL

Under Secretary

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 22nd September, 2014

No. F. 15-2530/10-E.I. —Consequent upon completion of his tenure of Central Deputation in Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) on 21.09.2014, ShriVirender Singh, IES (2001), Deputy Secretary, after availing paternity leave w.e.f. 18.09.2014 to 01-10-2014 suffixing Gazetted Holidays from 2-10-2014 to 06-10-2014, is relieved of his duties w.e.f. 07.10.2014 (F/N) with advise to report to his parent cadre.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

CORRIGENDUM

New Delhi, the 21st January, 2015.

No.A-32011/09/2013-E.I.—In partial supersession of this Ministry's Notification of even number dated 09.01.2015, the President is pleased to appoint ShriSushanta Kumar Saha (CSL No. 8635), Section Officer of CSS as Under Secretary (Grade-I) of CSS in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- for a period upto 31.05.2015 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier with effect from 01.01.2015(F.N) [instead of 26/12/14(F.N)] purely on ad-hoc basis.

2. All other contents mentioned in the aforesaid Notification will remain same.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 9th April, 2015

No. A-32011/09/2013-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Deep Chand Lakra, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource

Development with effect from forenoon of 26/03/2015 for a period up to 31.05.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 7th May, 2015

No. A-32011/5/2015-E.I.—In pursuance of Ministry of Statistics and Programme Implementation's Office Order No. 12015/03/2014-ISS dated 17.04.2015, Dr. Archana Shukla, Assistant Director (Trainee), [ISS-2013] is taken on the strength against the post of Assistant Director as Trainee in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, in the Pay Band-3 [Rs. 15600-39100] + Grade Pay of Rs. 5400 with effect from the forenoon of 27.04.2015 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 8th May, 2015

No. 32011/5/2014-E.I.—The president is pleased to appoint Dr. Nasim Ahmad, Assistant Education Adviser (G), Department of Higher Education to the post of Deputy Education Adviser (G) in Pay Band-3 [15600-39100] with Grade Pay of 7600/- purely on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 06.05.2015 and for a period of one year or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment shall not confer on Dr. Nasim Ahmad any right to continue in the grade indefinitely and ad-hoc appointment may be terminated at any point without giving any reasons.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

No. A-12011/3/2014-E.I.—Consequent upon his regular promotion as Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) of the Subordinate Statistical Services (SSS) in PB-2 {Rs. 9300-34800/-} with Grade Pay of Rs. 4600/-, the President is pleased to appoint Shri Dalip Singh, Junior Statistical Officer to the post of Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) in the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education with effect from the forenoon of 01.05.2015.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 15th May, 2017

No. F.-15-2832/2014-E.I.—Consequent upon repatriation to his parent cadre i.e. Government of Uttar Pradesh, Shri Shashi Prakash Goyal, IAS (UP:1989), Joint Secretary in the Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development is relieved of his duties with effect from 15.05.2017 (A/N).

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 16th June, 2015

No. A.32011/09/2013-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year-2013, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs 6600/- with effect from 23.01.2015 or until further orders:

S.No.	Name of Officer (S/Shri/Smt. Ms./Dr.)	CSL No.
1	A.K. Singh	7842
2	Varghese Yohanan	7869
3	Rajeev Kumar	7914

SANJEEV SHRIVASTVA

Under Secretary

New Delhi, the 29th June, 2015

No. A.32011/09/2013-E.I.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List for the year-2012, the President is pleased to appoint the following ad-hoc Under Secretaries of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs 6600/- with effect from 04.02.2015 or until further orders:

S.No.	Name of Officer (S/Shri/Smt. Ms./Dr.)	CSL No.
1	Vijay Kumar	8436
2	Devender Kumar	8440

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 27th July, 2015

No. F.15-2604/2011-E.I.—The President is pleased to appoint ShriKundanNath, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 24.07.2015(F.N.), for a period up to 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

No. F.15-2601/2011-E.I.—The President is pleased to appoint ShriVikasTripathi, Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to Grade-I of CSS (Under Secretary) purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 24.07.2015(F.N.), for a period up to 31.12.2015 or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I of the CSS. The ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without assigning any reason therefore.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 31st July, 2015

No. F-15-2583/2011-E.I.—Consequent upon modification of results of SOs/Stenographers (Grade B/Grade I) Limited Departmental Competitive Examination (LDCE), 1996 by Union Public Service Commission in implementation of Hon'ble Supreme Court judgement in CA No. 6046-47 of 2004 titled RohtasBhankar and others vs. UOI &Anr, ShriRohtasBhankhar (Roll No. 000290) who is presently working as Under Secretary, M/o Human Resource Development, (Department of School Education and Literacy) is included in the Select List of Section Officer Grade of Central Secretariat Service for the year 1996 against DE Quota.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

No. F-15-2472/2010-E.I.—Consequent upon sad demise of ShriRajendra Kumar Maheshwari, Under Secretary [CSL No. 6440], on 13.07.2015, his name is struck off from the cadre strength & pay rolls of the Ministry of Human Resource Development w.e.f. 13.07.2015(A.N).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 12th August, 2015

No. F.-15-2882/2015-E.I.—Consequent upon her regular promotion as Senior Statistical Officer (SSO) (Gazetted) of the Subordinate Statistical Services (SSS) in PB-2{Rs.9300-34800} with Grade Pay of Rs. 4600/- against vacancy Calendar Year 2015, the President is pleased to appoint Ms.GurpreetKaur, Junior Statistical Officer to the post of Senior Statistical Officer (SSO)(Gazetted)inthe Ministry of Human Resource Development,Department of Higher Educationwith effect from the forenoon of 11.08.2015 and until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 24th August, 2015

No. E. 15-2884/2015-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sinha, IFS (JK:1993) as Director in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 24.08.2015 (AN), for a period of five years or until further Orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 19th October, 2015

No. A-32011/09/2013-E.I.—Consequent upon inclusion of their names for appointment to Grade-I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Select List for the Year-2014, the President is pleased to appoint following Under Secretaries of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 14.09.2015 or until further orders.

S. No.	Name of the Officer (S/Sh. /Mrs./Smt./Dr.)	CSL No.
1.	Rajesh kumarMaurya	8204
2.	Kiran K. Arora	8224
3.	C. P. Ratnakaram	8264
4.	Daulat Ram	8300
5.	AlokJawahar	8318
6.	P. Bhaktavatslam	8322
7.	B. K. Sharma	8406
8.	A. K. Gopal	8474
9.	K. D. Verma	8510
10.	Achint Kumar	8550
11.	Pushkar Kumar Singh	8554
12.	Deep Chand Lakra	8759

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 28th October, 2015

No. F. 15-2530/10-E.I. — Consequent upon completion of his extended tenure of Central Deputation in Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) on 21.09.2015, ShriVirender Singh, IES (2001), Deputy Secretary is relieved of his duties w.e.f. 22.09.2015 (F/N).

2. On completion of tenure of Central Deputation, ShriVirender Singh, Deputy Secretary is granted earned leave for 60 days from 22.09.2015 to 20.11.2015 (suffixing closed holidays 21.11.2015 and 22.11.2015) in pursuance of DoPT O.M. No. 27(38)-EO/87(SM), dated 20.05.87. After expiry of aforesaid leave, ShriVirender Singh is advised to report to his parent cadre.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 4thNovember, 2015

No. F-15-2897/2015-E.I.—Consequent upon inclusion of his name for appointment to Grade-I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Select List for the Year-2014, the President is pleased to appoint Sh. Rajender Prasad as Under Secretary (CSL No. 8956) of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 28.10.2015 (F.N.) or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

No. F-15-2896/2015-E.I.—Consequent upon inclusion of his name for appointment to Grade-I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Select List for the Year-2014, the President is pleased to appoint Sh. Ghanshyam as Under Secretary (CSL No. 8952) of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 27.10.2015 (F.N.) or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 24th November, 2017

No. A.-32011/3/2016-E.I.—In pursuance of DoPT O.M No. 11/1/2014-EO (MM-I) dated 23rd November, 2017, accepting request for premature repatriation to parent cadre to avail benefit of promotion, ShriVinaySrivastava, IRSME (1992), Private Secretary to the Minister for Human Resource Development (ShriPrakashJavadekar) is relieved of his duties w.e.f the afternoon of 24th November, 2017.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 28th December, 2015

No. A-32011/09/2013-E.I.—In partial modification of this ministry's Notification of even No. dated 19.10.2015 and consequent upon inclusion of his name for appointment to Grade-I of the Central Secretariat Service (Under Secretary) in the Select List for the Year-2014, the President is pleased to appoint ShriPushkar Kumar Singh, (CSL No. 8554) as Under Secretary of CSS on regular basis in PB-3 with Grade Pay of Rs. 6600/- with effect from 01.12.2015 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 28th January, 2016

No. F.15-2910/2015-E.I.—The President is pleased to appoint ShriSiljo V.K., ISS (2004) as Deputy Secretary under Central Staffing Scheme in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) in PB-3 with Grade Pay of Rs. 7600/- with effect from 22.01.2016 (AN), for a period of four years or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 5th February, 2016

No. F.15-2916/2016-E.I.—The President is pleased to appoint ShriPremPrakash Gupta, Under Secretary [CSL No. 5694] of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 03.02.2016 (FN), initially for a period up to 30.06.2016 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right on the incumbent to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

3. The above ad-hoc appointment shall be subject to the terms and conditions mentioned in para-3 of DoPT Order No. 4/11/2015-CS-I(D) dated 01-02-2016.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 11th March, 2016

No. F.15-2921/2016-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Malathi Narayanan, Under Secretary [CSL No. 5756] of Central Secretariat Service (CSS) as Deputy Secretary of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Human Resource Development with effect from 10.03.2016 (FN), initially for a period up to 30.06.2016 or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment shall not confer any right on the incumbent to continue in the grade indefinitely and may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

3. The above ad-hoc appointment shall be subject to the terms and conditions mentioned in para-3 of DoPT Order No. 4/11/2015-CS-I(D) dated 08-03-2016.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 28th March, 2016

No. F.15-2922/2016-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Girish Chandrashekhar Hosur, IFS (HP:1996) as Director under Central Staffing Scheme in the Ministry of Human Resource Development (Department of School Education & Literacy) with effect from 21.03.2016 (FN), for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 10th May, 2016

No. A-32011/5/2014-E.I.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 8th May, 2015, the president is pleased to extend the tenure of ad-hoc appointment of Dr. Nasim Ahmad, Assistant Educational Adviser as Deputy Educational Adviser in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 7600 for a further period of six months beyond 06.05.2016 or till regular arrangement is made, whichever is earlier.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 28th June, 2016

No. A.22011/06/2013-E.I.—In pursuance of DoPT O.M. No. 4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016, the President is pleased to appoint the following officers who are officiating as Deputy Secretary on ad-hoc basis, as Deputy Secretary of Central Secretariat Service on regular basis against Select List of 2012 in the Ministry of Human Resource Development w.e.f. 6th June, 2016.

S.No.	CSL No.	Name of the officer
1.	4917	Shri Anil Kakria
2.	4937	Shri Dalip Kapur
3.	4970	Shri Naveen Chander Ragtah
4.	4982	Ms. Nita Gupta
5.	4984	Shri Subodh Kumar Ghildiyal
6.	5000	Shri B. D. Shivani
7.	5438	Shri Manik Mandal

2. The above regular appointment shall be subject to the terms and conditions as laid down in DoPT O.M. No. 4/4/2016-CS-I(D) dated 06.06.2016.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 13th July, 2016

No. A-12011/3/2015-E.I.—Consequent upon his regular promotion from Junior Time scale to Senior Time Scale of Indian Statistical Service, the President is pleased to appoint Shri Krishna Kumar Tiwari as Deputy Director (STS Level) in the Pay Band-3 [Rs. 15600-39100] + Grade Pay of Rs. 6600 in regular capacity with effect from the forenoon of 10th December, 2015 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 2nd September, 2016

No.A.-32011/5/2015.—The President is pleased to appoint Smt. Swapna Bhattacharya, ISS as Director in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 19th August, 2016 or until further orders.

SUJIT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 26th October, 2016

No. A-32011/5/2014-E.I.—In continuation of this Ministry's Notification of even number dated 10 May, 2016, the president is pleased to extend the tenure of ad-hoc appointment of Dr. Nasim Ahmad, Assistant Educational Adviser as Deputy Educational Adviser in Pay Band-3(Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 7600 for a further period of three months beyond 05.11.2016 or till regular arrangement is made, whichever is earlier

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 8th November, 2016

No. A.-2715/2013-E.I.—Consequent upon completion of his tenure of central deputation on 04.11.16 (A.N.), Shri Y S K Seshu Kumar, IFoS (UP:87), Joint Secretary in the Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development is deemed relieved of his duties with effect from the afternoon of 4th November, 2016.

2. On his relieving, Shri Y S K Seshu Kumar, Joint Secretary is granted earned leave for 60 days w.e.f. 05.11.2016 to 03.01.2017 in pursuance of DoP&T Office Memorandum No. 27(38)-EO/87(SM), dated 20.05.87. After expiry of aforesaid leave, Shri Y S K Seshu Kumar is requested to report to his parent cadre i.e. the Govt. of Uttar Pradesh.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 2nd December, 2016

No.F.-15-2956/16-E.I.—The President is pleased to appoint ShriKewal Kumar Sharma, IAS(AGMUT:83) as Officer on Special Duty (OSD), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 02.12.2016.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 9th January, 2017

No.A.-11011/1/2016-E.I (pt.).—The President is pleased to appoint ShriAshwani Kumar, IAS (AM:2010), as Officer on Special Duty to Hon'ble Minister of Human Resource Development (ShriPrakashJavadekar) in PB-3 [Rs. 15600-39100/-] with Grade Pay of Rs. 6600 (Level-11 in revised Pay Matrix) with effect from 30.12.2016 (FN) on co-terminus basis with the term of Minister or till he ceases to function as Officer on Special Duty to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 20th January, 2017

No. F-15-2829/2014-E.I.—Consequent upon her appointment as Member Secretary, National Commission for Women (NCW), Ministry of Women & Child Development, Dr. SatbirBedi, IAS (AGMUT:86), Joint Secretary, Department of School Education & Literacy Shall Stand relieved her duties in this Ministry w.e.f. 23.01.2017(FN).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 10th April, 2017

No.F.-15-2963/2017-E.I.—The President is pleased to appoint ShriKirti Shankar Awasthi (UPPCS), Deputy Director (Panchayat), Agra Division, Govt. of Uttar Pradesh as Officer on Special Duty to Hon'ble Minister of State for Human Resource Development (Dr. MahendraNathPandey) in PB-3 [Rs. 15600-39100/-] with Grade Pay of Rs. 7600 (Level-12 in revised Pay Matrix) with effect from 03.04.2017 (FN) for a period of four years or on co-terminus basis with the term of Minister or till he ceases to function as OSD to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

No.F.-15-2964/2017-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Anita Karwal, IAS(GJ:1988) as Joint Secretary, Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 10.04.2017 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier *vice* Shri Ms. SatbirBedi, IAS(AGMUT:1986).

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 27th April, 2017

No.A.-12011/4/2015.—Consequent upon her regular promotion vide Department of Official Language's Office Order No. 5/13/2013-OL(Service) dated 29.03.2017 and assumption of the charge of the post on 21.04.2017(AN), the President is pleased to appoint Smt. Suniti Sharma as Director (Official Language) in Ministry of Human Resource Development with effect from the afternoon of 21st April, 2017 or until further orders.

RAJESH KUMAR SINGH

Under Secretary

New Delhi, the 8th June, 2017

No. F.15-2970/2017-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, ITS (2000) as Director under Central Staffing Scheme in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 07.06.2017 (FN), for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

P. SASI KUMAR

Deputy Secretary

New Delhi, the 25th July, 2017.

No.A.-32011/8/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Ms. Anita Karwal, IAS (GJ:88), Joint Secretary in the Department of School Education & Literacy as Additional Secretary (in-situ), Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 22.07.2017 by temporarily upgrading the post held by her.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

No.A.-32011/8/2014-E.I.—The President is pleased to appoint ShriSukhbir Singh Sandhu, IAS (UK:88), Joint Secretary in the Department of Higher Education as Additional Secretary (in-situ), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 22.07.2017 by temporarily upgrading the post held by him.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 11thAugust, 2017

No. A.-32011/08/2014-E.I.—Consequent upon his appointment as Member Secretary (JS Level), National Pharmaceuticals Pricing Authority (NPPA) under Department of Pharmaceuticals, on lateral shift basis, ShriRakeshRanjan, IAS(MN:1992), Joint Secretary, Department of Higher Education shall stand relieved of his duties in this Ministry w.e.f. 14.08.2017 (FN).

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 16th August, 2017

F.15-2756/2013-E.I.—Consequent upon his empanelment and appointment for holding the post of Joint Secretary or equivalent at the Centre vide DoPT Order No. 21/2/2015-CS.I(D) dated 10th August, 2017, the President is pleased to appoint ShriManoj Kumar Kejrewal, Director [CSL No. 3575-A] of Central Secretariat Service (CSS) as Joint Secretary (in-situ) in SAG grade in the Ministry of Human Resource Development (Department of Higher Education) with effect from 11.08.2017 (FN) until further orders.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 24th November, 2017

No.A.32011/8/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Sinha, IFoS (JK:1993) as Joint Secretary in Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 21.11.2017 in Level-14 [Rs. 1,44,200-2,18,200] of pay matrix, for a tenure of overall five years i.e. upto 23.08.2020 or until further orders, whichever is earlier vice ShriRakeshRanjan, IAS (MN:1992).

ACHINT KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 1st December, 2017

No.A.-32011/8/2014-E.I.—The President is pleased to appoint Shri R. Subrahmanyam, IAS (AP:85), Additional Secretary, Department of Higher Education as Special Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development, as a measure personal to him, by in-situ, temporary upgradation of the post held by him w.e.f. 01.12.2017 (FN).

P. SASIKUMAR

Deputy Secretary

New Delhi, the 19th December, 2017

No.A.-32011/9/2014-E.I.—The President is pleased to appoint ShriSachinSinha, IAS (MP:1995) as Joint Secretary in Department of School Education & Literacy, Ministry of Human Resource Development with effect from the forenoon of 18.12.2017 in Level-14 [Rs. 1,44,200-2,18,200] of pay matrix, for a tenure of five years or until further orders, whichever is earlier *vice* Shri Ajay Tirkey, IAS (MP:1987).

P. SASIKUMAR

Deputy Secretary

New Delhi, the 18th January, 2018

No. A.-32011/3/2016-E.I.—The President is pleased to appoint Dr. Mandeep Kumar Bhandari, IAS(JK:2001) as Private Secretary to Hon'ble Minister of Human Resource Development (ShriPrakashJavadekar) in the Department of Higher Education at the level of Director [PB-4+GP-8700/-](Pre-Revised)[Level-13 of Pay matrix] for a period of five years w.e.f. 18.01.2018 (FN) or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

ACHINT KUMAR

Under Secretary

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 7th March, 2018

No. A-19011/2/2018-Estt.—Consequent on his appointment as Additional Secretary & Financial Adviser by temporarily upgrading a vacant post of Joint Secretary, Ministry of Culture vide Department of Personnel & Training (Secretariat of the Appointments Committee of the Cabinet)'s Order No. 36/01/2018-EO (SM-1) (1) dated 28th February, 2018, ShriBipinBihariMallick, IAS (MH: 1986) has assumed the charge of the post of Additional Secretary & Financial Adviser, Ministry of Culture in the forenoon of 1st March, 2018.

MANEESH RAJAN

Under Secretary

(ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA)

New Delhi, the 5th April, 2018

No. 3-2/2015-Adm. I.—Consequent upon inclusion of the name in the regular list of Assistant Director(OL) Grade for the year 2015-16, the President is pleased to appoint Smt. Anita Anurag, Assistant Director (OL) (Ad-hoc) on regular basis in Archaeological Survey of India, Ministry of Culture as indicated below:

S.No.	Name	Date of Appointment	Year
1.	Smt. Anita Anurag	08.03.2018	2015-16

TARA CHANDAR

Dy. Director (Administration)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(NATIONAL INFORMATICS CENTRE)

New Delhi, the 28thMarch, 2018

No. PF/932/NIC/2017/Adm-I.—Shri Sanjay Singh Gahlout, Scientist-G (Emp. Code: 932) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P.R. DABRAL

Deputy Director (Admin.)

No. PF/708/NIC/2017/Adm-I.—ShriRatanLalArora, Deputy Director (Emp. Code: 708) of National Informatics Centre, New Delhi is retiring on superannuation from Government service with effect from the afternoon of 31st March, 2018 and he stands relieved of his duties from the same day.

P.R. DABRAL

Deputy Director (Admin.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

New Delhi, the 13th April, 2018

No. ERB-I/2014/2/41.—The President is pleased to appoint Ms. Lily Pandeya, IRPS as Executive Director, E/Special Projects (University), Railway Board on promotion to SA Grade with effect from afternoon of 09.04.2018.

RANJANESH SAHAI

Secretary, Railway Board

New Delhi, the 26th April, 2018

No. E (O) III-2018/RN/16.—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited (RVNL) Shri Saroj Kanta Patra, an officer of the Indian Railway Service of Engineers (DOB : 13/12/1966, DITS : 30/11/1992, LIEN : SER), has resigned from Railway service with effect from 05/04/2018.

RANJANESH SAHAI

Secretary, Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 19th April, 2018

F. No. A-32013/3/2017-SL.—The President is pleased to promote the following Deputy Directors to the post of Director, a Gazetted Group 'A' Non-Ministerial post in Level-12 of the Pay Matrix [Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 + Grade pay of Rs 7600/- (pre-revised)] in the Directorate of Lighthouses & Lightships with effect from the dates indicated against each:

S.No	Name	Date of Joining the post
1.	Shri Rakesh Kumar Verma	16.03.2018 (AN)
2.	Shri A. K. Debata	19.03.2018 (AN)
3.	Shri Birendra Yadav	14.03.2018

JITENDRA KUMAR GOSWAMI

Assistant Director

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

[ESTABLISHMENT I (B) SECTION]

New Delhi, the 6th September, 2017

No. A-38012/2/2017-E-I(B).—Sh. Brij Bhushan Sharma, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Principal Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has voluntarily retired from Government Service w.e.f. 01.09.2017 (F/N).

RAJINDER KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 5th February, 2018

No. A-38013/02/2017-E-I(B).—Sh. Baldev Singh, PS, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation from Government Service w.e.f. 31.01.2018 (A/N).

RAJINDER KUMAR

Under Secretary

New Delhi, the 3rd April, 2018

No. A-38012/01/2017-E-I(B).—Sh. Chanchal Ghosh, an officer of Central Secretariat Stenographers Service and working as Principal Private Secretary in the Ministry of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation w.e.f. 31.03.2018 (A/N).

RAJINDER KUMAR

Under Secretary

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

New Delhi, the 3rd April, 2018

No. 49/5/2018-Admin. I.—Consequent upon her promotion to Senior Administrative Grade of the Indian Economic Service by the Appointments Committee of the Cabinet and posting as Economic Adviser in Ministry of New & Renewable Energy against a vacant post vide Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2018 dated 23.03.2018, the President is pleased to appoint Ms. Yogita Swaroop (IES : 1992) as Economic Adviser in Ministry of New & Renewable Energy in Level-14 of the Pay Matrix with effect from the forenoon of 02-04-2018 and until further orders.

ARVIND POKHRIYAL

Under Secretary

New Delhi, the 1st May, 2018

No. 6/186/90-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Dr. D. K. Khare, Scientist "F" in Ministry of New & Renewable Energy retired from Government service with effect from 30th April, 2018 (AN).

ARVIND POKHRIYAL

Under Secretary

No. 6/189/90-Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Sh. S. K. Singh, Scientist "G" in Ministry of New & Renewable Energy retired from Government service with effect from 30th April, 2018 (AN).

ARVIND POKHRIYAL

Under Secretary

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E)

(ODISHA, BHUBANESWAR)

Bhubaneshwar, the 17th April, 2018

E.O. No.: -06.—Consequent on their acceptance of offer of promotion issued vide this office OOC No. 05 dated 02.04.2018, the Principal Accountant General (A&E) Odisha has been pleased to allow the following Assistant Accounts

Officers to officiate as Accounts Officers [Gr. 'B'-Gazetted] in Level-9 (~ 53,100- 1,67,800/-) of Pay Matrix of CCS (revised Pay) Rules 2016, with effect from the date of taking over charge (mentioned against each) without prejudice to the claim of their seniors.

	Name	Date of Taking over charge
1.	Shri Mohan Charan Bedant	03.04.2018 FN
2.	Shri Pitamber Rath	02.04.2018 FN
3.	Shri Bamadev Pany	02.04.2018 FN

The promotion is on temporary basis subject to the final decision of the Supreme Court/High court/CAT, if any.

Other terms and conditions of OOC. No. 05 dated 02.04.2018 remain unchanged.

A.K. JOSHI,

Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

Bhubaneswar, 18th April, 2018

E.O. No.11.—Pursuant to Headquarters Office Circular No.17-Staff(App 1)/2016, issued with letter No.889-(App 1)/18-2010 Vol III dated 18.05.2016 and on joining as AAO against the offer of promotion issued vide OOC No.06 dated 02.04.2018, the following SAS (Civil Accounts) passed officials are allowed to officiate as Assistant Accounts Officers in Level 8 (₹ 47,600/- to ₹ 1,51,100/-) of Pay Matrix of the CCS (Revised Pay) Rules 2016 with effect from 02.04.2018 FN:

Sl. No.	Name (S/Sri)	Present Post	Category
1	KAILASH CHANDRA BEHERA	AAO(Adhoc)	UR
2	PRABHAT KUMAR PRADHAN	AAO(Adhoc)	UR
3	MANMATH KUMAR BEHERA	AAO(Adhoc)	UR
4	BISWAJIT SAHU	AAO(Adhoc)	UR
5	SARAT CHANDRA BHARIMALLA	AAO(Adhoc)	UR
6	KUMAR BHASKAR	AAO(Adhoc)	UR

The names of the above officers are shown in order of their inter-se seniority.

Other conditions of OOC No.06 dated 02.04.2018 remain unchanged.

A.K. JOSHI

Sr. Deputy Accountant General (Admn.)

RAKESH
SUKUL

Digitally signed by
RAKESH SUKUL
Date: 2018.05.14 19:10:30
+05'30'